



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 05.09.2022

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:—

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा, 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद करके अभियुक्त छोटे सिंह को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 04.09.2022 को थाना नीमगांव पुलिस द्वारा गस्त व चेकिंग के दौरान अभियुक्त छोटे सिंह पुत्र भारत सिंह को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद करके गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना नीमगांव पर मु0अ0स0 317/22 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

छोटे सिंह पुत्र भारत सिंह निवासी नजीमाबाद थाना नीमगांव जनपद खीरी

बरामदगी:-

01 अदद तमंचा 315 बोर

01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

पुलिस टीम-

1- उ0नि0 सुनील कुमार सिंह (प्र0चौ0 सिकन्द्राबाद थाना नीमगांव)

2- हे0का0 संजय सिंह थाना नीमगांव

3- का0 अनुज कुमार थाना नीमगांव

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा, 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 05.09.22 को थाना नीमगांव पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. सोनू पुत्र मोहनलाल नि० बम्हनाबाद थाना नीमगांव जनपद खीरी (सम्बन्धित अ०सं० 1422/18 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम)
2. मक्कू उर्फ छत्रपाल पुत्र प्यारे पासी नि० कौरैया थाना नीमगांव जनपद खीरी (सम्बन्धित अ०सं० 1274/15 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम)

पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० कृष्ण चन्द्र तिवारी थाना नीमगांव
- 2- उ०नि० गौरव सिंह थाना नीमगांव
- 3- हे०का० महेन्द्र सिंह यादव थाना नीमगांव
- 4- का० विश्राम सिंह थाना नीमगांव

यूपी 112 पीआरवी 2881 द्वारा अवैध शराब के साथ 01 नफ़र अभियुक्त को गिरफ्तार करके थाना पलिया के सुपुर्द किया

दिनांक 04.09.2022 को इवेंट 2045 पर थाना पलिया अंतर्गत ग्राम अम्बेडकरनगर से कॉलर द्वारा सूचना दिया गया कि एक युवक घर में घुसकर मारपीट कर रहा है और लड़कियों को गाली दे रहा है। इस सूचना पर पीआरवी 2881 तत्काल मौके पर पहुंची तो जानकारी हुई कि युवक रवि प्रसाद भार्गव द्वारा नाजायज शराब रखने व बेचने का कार्य किया जाता है जिसका कुछ लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा था। पीआरवी को देखते ही युवक एक गैलेन लेकर भागने लगा जिसे पीआरवी द्वारा दौड़ाकर पकड़ लिया गया। जिसके पास से मिले गैलेन में 20 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए पीआरवी द्वारा युवक को गिरफ्तार करके बरामद अवैध शराब के साथ थाना पलिया के सुपुर्द किया। जहां आरोपी के विरूद्ध मु०अ०स० 515/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत करके आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

रवि प्रसाद भार्गव पुत्र रामविलास भार्गव निवासी इंदिरा आवास कॉलोनी, अम्बेडकर नगर पतिहन थाना पलिया जनपद खीरी

बरामदगी:-

20 लीटर अवैध कच्ची शराब

पुलिस टीम:-

- 1.उ०नि० धर्मेन्द्र कुमार सिंह
- 2.का० रंजीत कुमार

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

- थाना पलिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 106/17 धारा 316/511/506 भादवि व 8 लैगिंग अधि0 में वारण्टी अभियुक्त सुरेन्द्र पुत्र सालिकराम निवासी कवारिया थाना पलिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना पलिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 06/18 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट में वारण्टी अभियुक्तगण 1. मोहित पुत्र रामबहादुर, 2. सुनील पुत्र अशर्फीलाल निवासी बेलाकला थाना पलिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मैलानी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 38/02 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट में वारण्टी अभियुक्त पप्पू पुत्र मिश्रीलाल निवासी देवीपुर ग्रन्ट नं0 10 थाना मैलानी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 130 लीटर अवैध शराब बरामद कर 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **130 लीटर अवैध** कच्ची शराब व **07 शराब भट्टी** बरामद कर **13 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **13 अभियोग** पंजीकृत किए गए।